

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 589]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 6 नवम्बर 2023 — कार्तिक 15, शक 1945

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 30 अक्टूबर 2023

अधिसूचना
सं. 09/2022-राज्य कर

क्रमांक एफ 10-35/2023/वाक/पांच (47).— राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 (क्रमांक 11 सन् 2023) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 5 जुलाई, 2022 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 12 के खंड (ग) और धारा 13 के उपबंध प्रवृत्त माने जाएंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हिम शिखर गुप्ता, सचिव.

अटल नगर, दिनांक 30 अक्टूबर 2023

क्रमांक एफ 10-35/2023/वाक/पांच (47).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-35/2023/वाक/पांच(47), दिनांक 30-10-2023 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हिम शिखर गुप्ता, सचिव.

Atal Nagar, the 30th October 2023

NOTIFICATION
No. 09/2022 – State Tax

No. F 10-35/2023/CT/V (47).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Chhattisgarh Goods And Services Tax (Amendment) Act, 2023 (No. 11 of 2023), the State Government hereby appoints the 5th day of July, 2022, as the date on which the provisions of clause (c) of section 12 and section 13 of the said Act shall be deemed to have come into force.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
HIM SHIKHAR GUPTA, Secretary.

अटल नगर, दिनांक 30 अक्टूबर 2023

अधिसूचना
सं. 18/2022-राज्य कर

क्रमांक एफ 10-35/2023/वाक/पांच (48).— राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 (क्रमांक 11 सन् 2023) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 अक्टूबर, 2022 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 12 के खंड (ग) और धारा 13 को छोड़कर, धारा 2 से 15 के उपबंध प्रवृत्त माने जाएंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हिम शिखर गुप्ता, सचिव.

अटल नगर, दिनांक 30 अक्टूबर 2023

क्रमांक एफ 10-35/2023/वाक/पांच (48) .— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-35/2023/वाक/पांच(48), दिनांक 30-10-2023 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हिम शिखर गुप्ता, सचिव.

Atal Nagar, the 30th October 2023

NOTIFICATION
No. 18/2022 – State Tax

No. F 10-35/2023/CT/V (48) .— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Chhattisgarh Goods And Services Tax (Amendment) Act, 2023 (No. 11 of 2023), the State Government hereby appoints the 1st day of October, 2022, as the date on which the provisions of sections 2 to 15, except clause (c) of section 12 and section 13, of the said Act shall be deemed to have come into force.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
HIM SHIKHAR GUPTA, Secretary.

अटल नगर, दिनांक 30 अक्टूबर 2023

अधिसूचना

सं. 19/2022-राज्य कर

क्रमांक एफ 10-35/2023/वाक/पांच (49).— राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये 1 अक्टूबर, 2022 से प्रभावी माने जाएंगे।

2. छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017, (जिसे इसमें इसके बाद उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 21 में, खंड (छ) के बाद, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :

“(ज) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति होने के कारण प्रत्येक माह या उसके भाग के लिए धारा 39 की उपधारा (1) के तहत विवरणी दाखिल करने की आवश्यकता है और लगातार छह महीने की अवधि के लिए विवरणी प्रस्तुत नहीं की है;

(झ) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति होने के कारण प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिए धारा 39 की उपधारा (1) के प्रावधान के तहत विवरणी दाखिल करने की आवश्यकता है और दो कर अवधि के निरंतर समय के लिए विवरणी प्रस्तुत नहीं किया है।”;

3. उक्त नियमों के नियम 36 में,—

(क) उप-नियम (2) में, शब्दों अक्षरों और अंक, “और उक्त दस्तावेज में यथा अंतर्विष्ट सुसंगत सूचना ऐसे व्यक्ति द्वारा प्ररूप जीएसटीआर-2 में दी गई है” का लोप किया जाएगा;

(ख) उप-नियम (4) में, खंड (ख) में, “ऐसे इन्वॉइसेस या डेबिट नोट्स” शब्दों के बाद, “जिनके इनपुट टैक्स क्रेडिट” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

4. उक्त नियमों के नियम 37 में,—

(क) उपनियम (1) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“(1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो माल या सेवा या दोनों की किसी आवक प्रदाय पर इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करता है, उन आपूर्तियों के अलावा जिन पर कर रिवर्स चार्ज के आधार पर देय है, लेकिन उसके आपूर्तिकर्ता को धारा 16 की उपधारा (2) के दूसरे परंतुक में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह उस पर संदेय कर सहित बीजक के जारी किए जाने की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के ठीक पश्चात् वाली कर अवधि में, ऐसी आपूर्ति के संबंध में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के बराबर राशि का भुगतान धारा 50 के तहत उस पर देय ब्याज के साथ प्ररूप जीएसटीआर-3ड में करेगा :

परंतु उक्त अधिनियम की अनुसूची 1 में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिफल के बिना की गई प्रदाय का मूल्य, धारा 16 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनों के लिए संदत्त किया गया समझा जाएगा;

परन्तु यह और की धारा 15 की उपधारा (2) के खंड (ख) के उपबंधों के अनुसार जोड़ी गई किसी रकम के मुद्दे प्रदायों के मूल्य को धारा 16 की उपधारा (2) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनों के लिए संदत्त किया गया समझा जायेगा।;

(2) जहां उक्त पंजीकृत व्यक्ति बाद में इस तरह की आपूर्ति के मूल्य की राशि का भुगतान उसके आपूर्तिकर्ता को देय कर के साथ करता है, वह उप-नियम (1) में निर्दिष्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट का पुनः लाभ उठाने का हकदार होगा।”;

(ख) उप-नियम (3) का लोप कर दिया जाएगा ;

5. उक्त नियमों के नियम 38 में,—

(क) खंड (क) में, उप-खंड (पप) में, शब्द, अक्षरों और अंक, “प्ररूप जीएसटीआर-2 में” का लोप कर दिया जाएगा;

(ख) खंड (ग) में, शब्दों, अक्षरों और अंक के लिए, “और प्ररूप जीएसटीआर-2 में दिया जाएगा”, शब्दों, अक्षरों और अंक, “और इनपुट टैक्स क्रेडिट की शेष राशि प्ररूप जीएसटीआर-3ख में उत्कर्मित कर दी जाएगी” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) खंड (घ) का लोप कर दिया जाएगा;

6. उक्त नियमों के नियम 42 में, उप-नियम (1) में, खंड (छ) में, शब्दों, अक्षरों और अंक, “प्ररूप जीएसटीआर-2 में बीजक स्तर पर और” का लोप किया जाएगा;

7. उक्त नियमों के नियम 43 में, उप-नियम (1) में, शब्दों, अक्षरों और अंक, “प्ररूप जीएसटीआर-2 और” दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं, का लोप किया जाएगा;

8. उक्त नियमों के नियम 60 में, उप-नियम (7) में, “स्वतः तैयार” शब्दों के स्थान पर, “स्वतः जनित” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

9. उक्त नियमों के नियम 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 और 79 का लोप किया जाएगा;

10. उक्त नियमों के नियम 83 में, उप-नियम (8) में, खंड (क) में, “और आवक” शब्दों का लोप किया जाएगा;

11. उक्त नियमों के नियम 85 में, उप-नियम (2) में, खंड (ग) का लोप किया जाएगा;

12. उक्त नियमों के नियम 89 के उपनियम (1) में,—

(क) शब्दों “कोई व्यक्ति, जो” के बाद, शब्द, कोष्ठक और अंक “धारा 49 की उप-धारा (6) के प्रावधानों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता बही में किसी भी शेष राशि का, या” को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ख) पहले परंतुक का लोप किया जाएगा;

(ग) दूसरे परंतुक में, “परंतु यह और भी” शब्दों के स्थान पर, शब्दों “परंतु” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(घ) तीसरे परंतुक में, “परन्तु यह भी” शब्दों के स्थान पर, शब्दों “परन्तु यह और भी” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

13. उक्त नियमों के नियम 96 में, उपनियम (3) में शब्दों, अक्षरों और अंको “प्ररूप जीएसटीआर-3 या प्ररूप जीएसटीआर-3ख, जैसा भी मामला हों” के स्थान पर, अक्षरों और अंक, “प्ररूप जीएसटीआर-3ख” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

14. उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटीआर-1क, प्ररूप जीएसटीआर-2 और प्ररूप जीएसटीआर-3 का लोप किया जाएगा;

15. उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटी पीसीटी-05 में, भाग-क में, तालिका में, क्रमांक 1 के सामने, “गतिविधियों की सूची” शीर्षक के तहत, शब्दों “और आवक” का लोप किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हिम शिखर गुप्ता, सचिव.

अटल नगर, दिनांक 30 अक्टूबर 2023

क्रमांक एफ 10-35/2023/वाक/पांच (49).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसार में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-35/2023/वाक/पांच(49), दिनांक 30-10-2023 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हिम शिखर गुप्ता, सचिव.

Atal Nagar, the 30th October 2023

NOTIFICATION
No. 19/2022 – State Tax

No. F 10-35/2023/CT/V (49).— In exercise of the powers conferred by section 164 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: —

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Chhattisgarh Goods and Services Tax (Second Amendment) Rules, 2022.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall be deemed to have come into force with effect from the 1st day of October, 2022.

2. In the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017 (herein after referred to as the said rules), in rule 21, after clause (g), the following clauses shall be inserted, namely:-

“(h) being a registered person required to file return under sub section (1) of section 39 for each month or part thereof, has not furnished returns for a continuous period of six months;

(i) being a registered person required to file return under proviso to sub section (1) of section 39 for each quarter or part thereof, has not furnished returns for a continuous period of two tax periods.”;

3. In rule 36 of the said rules,—

(a) in sub-rule (2), the words, letters and figure, “, and the relevant information, as contained in the said document, is furnished in FORM GSTR-2 by such person” shall be omitted;

(b) in sub-rule (4), in clause (b), after the words, “the details of”, the words, “input tax credit in respect of” shall be inserted;

4. In rule 37 of the said rules,—

(a) for sub-rules (1) and (2), the following sub-rules shall be substituted, namely:-

“(1) A registered person, who has availed of input tax credit on any inward supply of goods or services or both, other than the supplies on which tax is payable on reverse charge basis, but fails to pay to the supplier thereof, the amount towards the value of such supply along with the tax payable thereon, within the time limit specified in the second proviso to sub-section (2) of section 16, shall pay an amount equal to the input tax credit availed in respect of such supply along with interest payable thereon under section 50, while furnishing the return in FORM GSTR-3B for the tax period immediately following the period of one hundred and eighty days from the date of the issue of the invoice:

Provided that the value of supplies made without consideration as specified in Schedule I of the said Act shall be deemed to have been paid for the purposes of the second proviso to sub-section (2) of section 16:

Provided further that the value of supplies on account of any amount added in accordance with the provisions of clause (b) of sub-section (2) of section 15 shall be deemed to have been paid for the purposes of the second proviso to sub-section (2) of section 16.;

(2) Where the said registered person subsequently makes the payment of the amount towards the value of such supply along with tax payable thereon to the supplier thereof, he shall be entitled to re-avail the input tax credit referred to in sub-rule (1).”;

(b) sub-rule (3) shall be omitted;

5. In rule 38 of the said rules,—

(a) in clause (a), in sub-clause (ii), the word, letters and figure, “in FORM GSTR-2” shall be omitted;

(b) in clause (c), for the words, letters and figure, “and shall be furnished in FORM GSTR-2”, the words, letters and figure, “ and the balance amount of input tax credit shall be reversed in FORM GSTR-3B” shall be substituted;

(c) clause (d) shall be omitted;

6. In rule 42 of the said rules, in sub-rule (1), in clause (g), the words, letters and figure, “at the invoice level in FORM GSTR-2 and” shall be omitted;

7. In rule 43 of the said rules, in sub-rule (1), the words, letters and figure, “FORM GSTR-2 and” at both the places where they occur, shall be omitted;

8. In rule 60 of the said rules, in sub-rule (7), for the words “auto-drafted”, the words “auto-generated” shall be substituted;

9. rules 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 and 79 of the said rules shall be omitted;

10. In rule 83 of the said rules, in sub-rule (8), in clause (a), the words “and inward” shall be omitted;

11. In rule 85 of the said rules, in sub-rule (2), —

(a) in clause (b), for the words “said person;”, the words “said person; or” shall be substituted;

(b) clause (c) shall be omitted;

12. In rule 89, of the said rules, in sub-rule (1), —

(a) after the words “ claiming refund of”, the words, brackets and figures “any balance in the electronic cash ledger in accordance with the provisions of sub-section (6) of section 49 or” shall be inserted;

(b) the first proviso shall be omitted;

(c) in the second proviso, for the words “Provided further that”, the words “Provided that” shall be substituted;

(d) in the third proviso, for the words “Provided also that”, the words “Provided further that” shall be substituted;

13. In rule 96 of the said rules, in sub-rule (3), for the words, letters and figures, “FORM GSTR-3 or FORM GSTR-3B, as the case may be”, the letters and figure, “FORM GSTR-3B” shall be substituted;

14. FORM GSTR-1A, FORM GSTR-2 and FORM GSTR-3 of the said rules shall be omitted;

15. In FORM GST PCT-05 of the said rules, in Part-A, in the table, against Sr. No.1, under the heading “List of Activities”, the words, “and inward”, shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
HIM SHIKHAR GUPTA, Secretary.

अटल नगर, दिनांक 30 अक्टूबर 2023

अधिसूचना

सं. 22/2022-राज्य कर

क्रमांक एफ 10-35/2023/वाक/पांच (50).— राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये नियम दिनांक 15 नवंबर 2022 से प्रवृत्त माने जाएंगे।

2. छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017, (जिसे इसमें इसके बाद उक्त नियम कहा गया है) में, प्ररूप जीएसटीआर-9 में, शीर्षक अनुदेश के अधीन, पैरा 7 में, —

(क) शब्दों, अक्षरों और अंकों “अप्रैल, 2022 से सितंबर, 2022 के बीच प्ररूप जीएसटीआर-3ख में” के स्थान पर शब्दों, अक्षरों और अंकों “अप्रैल, 2022 से अक्टूबर, 2022 के प्ररूप जीएसटीआर-3ख में 30 नवंबर 2022 तक” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) सारणी में, दूसरे स्तंभ में, —

- (I) क्रम संख्या 10 और 11 के सामने, शब्दों अक्षरों और अंकों “अप्रैल, 2022 सितंबर, 2022 के प्ररूप जीएसटीआर-1” के स्थान पर शब्दों, अक्षरों और अंकों “अप्रैल, 2022 से अक्टूबर, 2022 के, 30 नवंबर, 2022 तक फाइल किए गए प्ररूप जीएसटीआर-1” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (II) क्रम संख्या 12 के सामने, शब्दों, अक्षरों और अंकों “अप्रैल, 2022 से सितंबर, 2022 के महीनों के लिए” के स्थान पर शब्दों, अक्षरों और अंकों “अप्रैल, 2022 से अक्टूबर, 2022 के महीनों के लिए, 30 नवंबर, 2022 तक” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (III) क्रम संख्या 13 के सामने, शब्दों, अक्षरों और अंकों “अप्रैल, 2022 से सितंबर, 2022 के महीनों के लिए” के स्थान पर शब्दों, अक्षरों और अंकों “अप्रैल, 2022 से अक्टूबर, 2022 के महीनों के लिए, 30 नवंबर, 2022 तक” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हिम शिखर गुप्ता, सचिव.

अटल नगर, दिनांक 30 अक्टूबर 2023

क्रमांक एफ 10-35/2023/वाक/पांच (50).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-35/2023/वाक/पांच(50), दिनांक 30-10-2023 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हिम शिखर गुप्ता, सचिव.

Atal Nagar, the 30th October 2023

NOTIFICATION
No. 22/2022 – State Tax

No. F 10-35 /2023/CT/V(50).— In exercise of the powers conferred by section 164 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: —

1. Short title and commencement. -(1) These rules may be called the Chhattisgarh Goods and Services Tax (Third Amendment) Rules, 2022.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall be deemed to have come into force from 15 November, 2022.

2. In the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in FORM GSTR-9, under the heading Instructions, in paragraph 7, -

(A) for the figures, letters and words “between April, 2022 to September, 2022”, the figures, letters and words “of April, 2022 to October, 2022 filed upto 30th November, 2022” shall be substituted;

(B) in the Table, in second column, -

- (I) against serial numbers 10 & 11, for the figures and words “April, 2022 to September, 2022”, the figures, letters and words “April, 2022 to October, 2022 filed upto 30th November, 2022” shall be substituted;
- (II) against serial number 12, for the figures and words “April 2022 to September 2022”, the figures, letters and words “April, 2022 to October, 2022 upto 30th November, 2022” shall be substituted;
- (III) against serial number 13, for the figures and words “April 2022 to September 2022”, the figures, letters and words “April, 2022 to October, 2022 upto 30th November, 2022” shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
HIM SHIKHAR GUPTA, Secretary.